

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

पत्रांक: 2233

जहानाबाद, दिनांक 16/7/2022

प्रेषक,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,
शाखा प्रबन्धक,
बैंक ऑफ़ इण्डिया,
सासाराम, शाखा।

विषय :- F.D. सत्यापन करने के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके शाखा से निर्गत निम्नलिखित F.D. M/s
Sushma Associates Private Limited, Diliyan Thana NO B8 Ward No 08, House No
850 Sasaram, PIN- 821115 के नाम से निर्गत है एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिलिखित है,
उसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके बैंक शाखा द्वारा सत्यापन के दिवस भेजी जा रही है।
अनुरोध है कि इस F.D. को सत्यापित करते हुए वक्त कार्यवाई से अधोहस्ताक्षरी
को अवगत कराने का कृपया किया जाए।

Sl.No.	F.D. No.	Amount
1	12060300022200	23,94,000.00
2	12060300022199	35,87,000.00

Both for verification
and found genuine.
21/09/2022



विश्वामाजय

21/09/22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

(Signature)



12-09-2022

JB813112949

Duplicate Copy

SUSHMA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

DILIYAN THANA NO B8 WARD NO 08
HOUSE NO 860 A SASARAM
821115
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No

12060300022199

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No

FD-1209225131

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No

JB8008546

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c

12060200001011

शाखा का नाम/Branch Name

SASARAMBIHAR

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

ANJALI SINGH

योजना / Scheme

FIXED DEPOSIT - RIRD.RES.

नामांकन / Nomination

N

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No.

AAWCS62G2M

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

ANY ONE DIRECTOR

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अल्पवयस्क है)

Guardian Name

a/c holder is minor

लियन चिह्नित / Lien Marked

N

जमा राशि /
Deposit Amount

3587000

जारी करने की तिथि /
Date of Issue

12-09-2022

दर /
Rate of Interest

6.30

अवधि /
Tenure of Deposit

12 Months 0 Days

परिपक्वता तिथि /
Maturity Date

12-09-2023

परिपक्वता मूल्य /
Maturity Value*

3780923

परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :

2. Automatic Renewal Clause

i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए वी गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए वी गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है.

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only

4. निवासी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अंत पर कर कटौती की जाएगी.

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AH (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)

6. परिपक्वता आहरण क्लॉज

6. Premature Withdrawal Clause

i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निवासी) पर 1% पेनल्टी लगेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1% कम

i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than the rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.


ii). 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निवासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है

ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than the rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner



12-09-2022

SUSHMA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

DILIYAN THANA NO B8 WARD NO 08
HOUSE NO 860 A SASARAM
821115
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12060305027250

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDB1209224603

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No JBB068545

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12060200001011

शाखा का नाम/Branch Name SASARAMBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	ANJALI SINGH
नामांकन / Nomination	N		
नामिती रजिस्ट्रेशन क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAWCS6202M	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	ANY ONE DIRECTOR		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याज दर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
2394000	12-09-2022	6.50	60 Months 0 Days	12-09-2027	3145875

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण शर्तें: a) यदि भण्डाना अनुदेश न दिये जाते तो 1 वर्ष के इससे अधिक अवधि के लिए निम्न जमा राशि का नवीकरण देय करीब 100 प्रतिशत पर प्रयुक्त व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. b) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए निम्न जमा राशि का नवीकरण देय करीब 100 प्रतिशत पर प्रयुक्त व्याज दरों के अनुरूप इससे अधिक अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15G और 15H एक सिक निवासी खातों के लिए है 4. निवासी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वार्षिक वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15G/15एच/15ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी 5. फॉर्म एक केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा 6. परिपक्वता आहरण शर्तें: a) 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकास) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक पैसा बैंक में रखा हो उससे बड़ा रेट से 1% कम b) 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकास) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक पैसा बैंक में रखा हो उससे बड़ा रेट से 1% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए एक से कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना दी जानी है	1. Rate of interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause a) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise b) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only 4. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each financial year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 5. Form 15G can be accepted only, if the account holder is above 60 years of age 6. Premature Withdrawal Clause a) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract the penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit was withdrawn, but Bg. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, 1% withdrawal penalty of minimum 30 days prior to withdrawal of deposit will be levied to draw b) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit was withdrawn, but Bg. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, 1% withdrawal penalty of minimum 30 days prior to withdrawal of deposit will be levied to draw
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

